

अभिभावकों के लिए निर्देश - सभी अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को वर्णमाला से स्वर और व्यंजनों को अलग-अलग लिखवाकर अभ्यास करवाएं।

1- स्वर जिनकी मात्राएँ लगती हैं।  
खाली स्थान में सही वर्ण भरो -

अ — इ — उ —

ऋ — ए — औ —

2 व्यंजन जिन पर मात्राएँ लगती हैं।  
खाली स्थान में सही वर्ण भरो -

क — ग — ङ —

च — — झ —

ट ठ — — ण

त थ — ध —

प — ष — म

य — ल —

श — स —

3- स्वर तथा व्यंजन को ढाँटकर लिखो -

क , च , ओ , ण , ह , अ , इ , आ

प , ऋ , ग , त , स , ख , ई , ख

स्वर

व्यंजन